



# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 121]  
No. 121]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 1978/फाल्गुन 18, 1899  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 1978/PHALGUNA 18, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)  
आदर्श

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1978

का.आ. 170(अ)/18वख/आईडीआरए/78.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 65(अ)/18कक/आईडीआरए/78, तारीख 4 फरवरी, 1978 द्वारा बाबुबिली, जिला श्रीकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश राज्य में चीनी विनिर्माण करने वाली मैसर्स श्री राम शुगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की यूनिट (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध ग्रहण उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 3 वर्ष की अवधि के लिए कर लिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबंध में, इस अनुसूचित उद्योग के उत्पादन की मात्रा को गिरने से रोकने की दृष्टि से लोक हित में वैसा करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18वख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि इस आदेश के जारी होने की

तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी सीविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थाओं, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का, (जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से भिन्न हैं), जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रारंभित या उद्भूत होने वाली सभी अधिकार विशेषाधिकार, बाध्याताएँ तथा दायित्व उक्त अवधि तक निलंबित रहेंगे।

[सं. फा. 4/4/78-सी.यू.सी.]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th March, 1978

S.O. 170(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 65(E)/18AA/IDRA/78 dated the 4th February, 1978, the management of the unit of Messrs. Shri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Bobbili, District Srikakulam in the State of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under

clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of 3 years ;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interest of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements,

settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or Company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[File No. 4/4/78-CUC]

P. C. NAYAK, Lt. Secy.